



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119]  
No. 119]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1982/चैत्र 9, 1904  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1982/CHAITRA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1982

का. आ. 189(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया के अनुरोध पर 30 मार्च, 1982 से असम राज्य में सुबन्सी गाओलिया बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि असम राज्य के डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुरजिमे की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-16/79-आर. आर. बी (1)1]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th March, 1982

S.O. 189(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested

so to do by United Bank of India, establishes with effect from the 30th March, 1982 a Regional Rural Bank in the State of Assam under the name of Subansiri Gaonlia Bank which shall operate within the local limits of the districts of Dibrugarh and Lakhimpur in the State of Assam.

[No. F. 1-16/79-RRB(I)]

का. आ. 190(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21 की) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सुबन्सी गाओलिया बैंक के प्रयोजक यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया से परामर्श करके, उत्तर लखीमपुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर सुबन्सी गाओलिया बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-16/79-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and United Bank of India, by which Subansiri Gaonlia Bank has been sponsored, specifies North-Lakhimpur as the place where Subansiri Gaonlia Bank shall have its head office.

[No. F. 1-16/79-RRB(II)]

का. आ. 191(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 12 की उप-धारा (6) के खण्ड

(क) के उप-खण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए, सृजन नीडी गाँओलिया बैंक, उत्तर लखीमपुर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-16/79-आर. आर. बी. (3)]

बी. पी. साहनी, संयुक्त सचिव

**S.O. 191(E).**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause Subansiri Gaonlia Bank, North Lakhimpur being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-16/79-RRB(III)]

V. P. SAWHNEY, Jt. Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1982

**का. आ. 192(अ) :**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री गणेशचन्द्र फूकन को सुबनसीडी गाँओलिया बैंक, उत्तर लखीमपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 30-3-1982 में प्रारम्भ होकर 31-3-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री गणेशचन्द्र फूकन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1-16/79-आर. आर. बी. (4)]

राम बेहरा, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1982

**S.O. 192(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Ganesh Chandra Phukan as the Chairman of the Suban-

siri Gaonlia Bank, North Lakhimpur and specifies the period commencing on the 30th March, 1982 and ending with the 31st March, 1985 as the period for which the said Shri Ganesh Chandra Phukan shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-16/79-RRB(IV)]

RAAM BEHRA, Under Secy.

#### भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आगोजना तथा ऋण कक्ष, बम्बई

#### अधिसूचना

बम्बई, 30 मार्च, 1982

**का. आ. 193(अ) :**—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

“सुबन सीडी गाँओलिया बैंक, उत्तर लखीमपुर, (असम)”।

[आर. पी. सी. सी. संख्या 225/आई. एन. सी. एल./311/82]

एच. बी. शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

#### RESERVE BANK OF INDIA

#### RURAL PLANNING AND CREDIT CELL, BOMBAY

#### NOTIFICATION

Bombay, the 30th March, 1982

**S.O. 193(E).**—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act, of the following bank, namely :—

“Subansiri Gaonlia Bank, North Lakhimpur (Assam)”.

[RPCC. No. 225/INCL/311-82]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director